

बच्चों महत्वपूर्ण है

परमेश्वर के साथ समय

मई 2021

शनिवार

1

आइए, इस महीने की शुरुआत परमेश्वर को एक चित्र के साथ धन्यवाद देते हुए करें!

रविवार

सोमवार

मंगलवार

बुधवार

गुरुवार

शुक्रवार

2

एक परिवार के रूप में ऑनलाइन आकर कुछ समय आराधना में बिताएं



3

किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप प्यार करते हैं और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें

4

एक स्तुति का गीत सुनो और गाओ जो आपको याद दिलाता है कि परमेश्वर कौन है

5

3 इमोजीज बनाएं: एक खुशी का यानि हैप्पी, दूसरा हरा (बीमार) और तीसरा उदास, गलातियों 6: 2-4 को पढ़ें



6

भजन 119: 11 को याद करें; यह आपको यह सोचने में मदद करेगा कि आप क्या करते हैं

7

इस चीज के बारे में चित्र बनाएं कि आपको कैसा लगता है कि भविष्य में परमेश्वर आपका उपयोग करेंगे



8

अपने पड़ोसी को उसके बगीचे में पानी देने में मदद करें और भजन 119: 11 को साझा करें

9

अपनी माँ के लिए एक कार्ड बनाएं, उसे बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं! उनके लिए प्रार्थना करें

10

उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपनी माताओं को कोविड के कारण खो दिया है, ताकि परमेश्वर उनको शान्ति प्रदान करें, भजन 34

11

इमोजी का उपयोग करें, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर से उन्हें बेहतर महसूस करने में मदद करने के लिए कहें

12

फिलिपियों 2: 1-11 पढ़िए और यीशु के चरित्र के विषय में कुछ सोचिए, जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं

13

अपने सबसे बड़े सपनों में से एक को चित्रित करें, और जबकि आप इसे बनाते हो तो परमेश्वर से उस सपने के विषय में बताएं

14

आइने में अपने आप को देखो और परमेश्वर को धन्यवाद दो कि उसने आपको कैसे बनाया; आप खास हैं

15

अपने पसंदीदा पौधे की एक तस्वीर लें या उसे चित्रित करें या फिर इसे परमेश्वर की रचना के रूप में किसी के साथ साझा करें



16

वीडियो कॉल के द्वारा अपने दोस्तों के साथ कुछ खेलों को आयोजित करें (भजन 133 पढ़ें)

17

उदास इमोजी का उपयोग करें और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें जिसे आप जानते हैं कि वह दुखी है और परमेश्वर से उनके दिल को आश्वासन देने के लिए कहें

18

भजन 4: 8 को याद करें और हर रात सोने से पहले अपने पलंग पर प्रार्थना करें

19

अपने परिवार की एक तस्वीर लें और देखें कि परमेश्वर ने उन्हें कैसा अनोखा बनाया है



20

इमोजी का उपयोग करें और अपने उन दोस्तों और ऐसे लोगों के लिये परमेश्वर को धन्यवाद दें जो आपको हंसाते या खुश करते हैं

21

हफ्ते के दौरान आपके साथ हुई 5 अच्छी बातों को लिखिए और उनके लिये परमेश्वर को धन्यवाद दो



22

लैव्यव्यवस्था 19:32 पढ़िए; किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछें कि आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं

23

एक कागज की चिड़िया बनाओ, उसपर रंग भरो और फिर नूह की कहानी को पढ़ो



24

उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने आपको परमेश्वर के बारे में बताया



25

तीमथियुस की कहानी को पढ़ने के लिए अपने कक्षा के दोस्तों को आमंत्रित करें



26

किसी भी ऐसे दैनिक गतिविधि के साथ एक मिनट की प्रार्थना को जोड़ें जो आप दिन में कई बार करते हैं, उदाहरण के लिए हर बार जब आप अपनी माँ से कुछ मांगते हैं, तो पहले प्रार्थना करें।

27

उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप खुद में बदलना चाहते हैं और परमेश्वर से उनकी मदद के लिए प्रार्थना करें



28

इफिसियों 6:1-2 को पढ़िए। यदि आपने अपनी माँ या पिताजी से कुछ गलत व्यवहार किया है तो उसके लिये माफी माँगें

29

चिल्ड्रेन काउंट के स्टाफ माइक और विक्की कांगस, के जीवन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें



30

अपना पसंदीदा गाना लगाएं और अपने परिवार को आपके साथ मिलकर एक्शन करने के लिए कहें

31

रोमियों 15:13 पढ़ें | इसे अपने दिन की शुरुआत और रात को सोने से पहले प्रार्थना के रूप में इस्तेमाल करें

वह बुद्धि की बात बोलती है, और उस के वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। नीतिवचन 31:26